



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 25—अक्टूबर 31, 2008 (कार्तिक 3, 1930)  
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 25—OCTOBER 31, 2008 (KARTIKA 3, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .....	1313	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, हट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	975	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	15	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	7003
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, हट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	1715	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .....	513
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .....	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .....	8985
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस .....	463
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण .....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .....	*		

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	1313	and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	975	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .....	15	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	1715	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	7003
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	513
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications, including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	8985
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	463
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

## खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर, 2008

## संकल्प

संख्या ई-12011/1/2008—हिंदी—खान मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भारत सरकार ने खान मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। इस समिति का गठन, कार्य इत्यादि निम्न प्रकार होंगे:—

## (I) गठन

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1. खान मंत्री       | अध्यक्ष   |
| 2. खान राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |

## गैर-सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित

- |  |       |
|--|-------|
| 3. श्री रवि प्रकाश वर्मा, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 4. श्री रमेश बैस, संसद सदस्य (लोक सभा)         | सदस्य |
| 5. श्री राजीव शुक्ला, संसद सदस्य (राज्य सभा)   | सदस्य |
| 6. श्री रघुनन्दन शर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा) | सदस्य |

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित

- |  |       |
|--|-------|
| 7. श्री दिग्विजय सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा)  | सदस्य |
| 8. डॉ॰ राजेश कुमार मिश्र, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |

अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ द्वारा नामित

- |                  |       |
|------------------|-------|
| 9. श्री शरद जोशी | सदस्य |
|------------------|-------|

केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित

- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 10. श्री गोपाल कृष्ण फरलिया | सदस्य |
|-----------------------------|-------|

खान मंत्रालय द्वारा नामित

- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 11. श्री राजेन्द्र सिंह मील | सदस्य |
| 12. श्री दीनबन्धु चौधरी     | सदस्य |
| 13. कुमारी विद्या ए. देवू   | सदस्य |
| 14. श्रीमती इन्दिरा तिवारी  | सदस्य |

राजभाषा विभाग द्वारा नामित

- |                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 15. श्री अरिल कुमार झा           | सदस्य |
| 16. श्री तय्यब अन्सारी           | सदस्य |
| 17. श्रीमती (डॉ॰) कमानक्षी सर्मा | सदस्य |

## सरकारी सदस्य

- |  |            |
|--|------------|
| 18. सचिव (खान)   | सदस्य      |
| 19. सचिव, राजभाषा विभाग  | सदस्य      |
| 20. अपर सचिव (खान)   | सदस्य      |
| 21. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग                                  | सदस्य      |
| 22. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, खान मंत्रालय               | सदस्य      |
| 23. संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय                                   | सदस्य      |
| 24. महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण                      | सदस्य      |
| 25. महानिर्देशक, भारतीय खान ब्यूरो                               | सदस्य      |
| 26. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.       | सदस्य      |
| 27. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान कॉपर लि.               | सदस्य      |
| 28. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि. | सदस्य      |
| 29. संयुक्त सचिव (हिंदी प्रभारी), खान मंत्रालय                   | सदस्य-सचिव |

## (II) कार्य

इस समिति का कार्य, संविधान में राजभाषा के संबंध में निहित विभिन्न प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, नियमों, केन्द्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा इस बारे में जारी निर्देशों के कार्यान्वयन में खान मंत्रालय एवं उसके संगठनों/उपक्रमों को सलाह देना होगा।

## (III) कार्य-काल

इस समिति का कार्यकाल इसके पुनर्गठन की तारीख से सामान्यतः तीन वर्ष का होगा वशर्त कि—

(क) समिति में नामजद संसद सदस्य जैसे ही संसद सदस्य नहीं रहेंगे, इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे उन पदों पर आरुढ़ हों जिन पर होने के कारण वे समिति के सदस्य हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्याग पत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त सदस्य समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य होगा।

## (IV) सामान्य

समिति का प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में होगा, लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर यदि ऐसा हों, में भी कर सकती है।

(V) यात्रा व अन्य भंड

(ग) समिति में नामित सदस्यों को "संसद सदस्य (जनता भवन) एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समान समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण द्वारा तथा दैनिक भता देय होगा।

(घ) मांगों के अन्य पैर, सरकारी सदस्यों के राजपत्र विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या JI-12034 का 86-रा. भा. (क-2) में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसरण और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दायें एवं नियमों के अनुसरण द्वारा भता तथा दैनिक भता देय होगा।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और सेवा शाखाएं प्रदेशों के प्रशासकों, राष्ट्रपति शाखावाला, उप राष्ट्रपति, सचिव राज्य, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद गभ सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, लोक शाखा, भारत के विदेशों एवं महासंस्था प्रवेशक, महासंस्था, लोदी व राज्य, संसदीय राजभाषा समिति और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वप्रथम की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया जाए।

अमिता मल्होत्रा पुंडे  
सचिव का सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 1 अक्टूबर, 2008

संख्या डी-10/10/2008-हिन्दी-3—अधिकांश "जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान" नोएडा (उत्तर प्रदेश) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत इस मंत्रालय की दिनांक 1 नवम्बर, 2004 की समसंख्यक अधिसूचना के माध्यम से "जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान" नोएडा को "समविश्वविद्यालय" का स्तर उन्नत करने की सिफारिश की जा रही है।

2. और प्रौद्योगिकी संस्थान अनुदान आयोग ने इस संकल्प के लिए एडिशनल सचिव, डी.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान" नोएडा के कार्यप्रणाली की समीक्षा की है।

3. और अधिक विवेकपूर्ण समिति की रिपोर्ट के अनुसार, पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 25 फरवरी, 2008 के आदेश पर संख्या एम. 6-8/2004 (ओ.पी.सी.-1) के माध्यम से "जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान" नोएडा को "समविश्वविद्यालय" का स्तर उन्नत करने की सिफारिश की जा रही है कि यह कार्य 30 वर्षों के अनुभव के साथ किया जाए।

4. इसलिए अब केवल सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा उन्नत शक्तियों को प्रयोग करने पर और इस संघर्ष में दिनांक 1 नवम्बर, 2004 की 86 मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना की शर्तों का पालन करते हुए अपने अधिकारों को अवधि की लिए नहीं प्रयोग की अंतर्गत उन्नत अधिनियम के प्रयोग

"जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान" नोएडा को समविश्वविद्यालय के रूप में जारी रखने का अनुदान प्रदान करती है बशर्ते कि वह निम्नलिखित शर्तों पर करेगा:

(i) जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित माँडल नियमों के अधीन की जाएगी और जे. पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नोएडा को प्रदान "समविश्वविद्यालय" का स्तर उन्नत विशेषज्ञ समीक्षा समिति की रिपोर्ट तथा उस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के अनुसार निर्धारित होगा।

(ii) जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित माँडल नियमों के अधीन की जाएगी और जे. पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नोएडा को प्रदान "समविश्वविद्यालय" का स्तर उन्नत विशेषज्ञ समीक्षा समिति की रिपोर्ट तथा उस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के अनुसार निर्धारित होगा।

(iii) जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर जय प्रकाश मेता संस्थान नाम, नई दिल्ली से न्याय के रूप पर वह विश्वास प्रदान किया कि नोएडा इस शिक्षा में बढ़ते पर दो गई भूमि को स्थायी रूप से जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा के क्षेत्रधिकार में रखने की अनुमति होगी।

(iv) जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षा पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित तथा समय-समय पर संशोधित पाठ्यक्रमों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं पर लागू होती है।

5. उपर्युक्त पैर 4 में की गई उद्घोषणा शर्तों के आधार पर अनुपालन पूरी पूरा किया जाएगा जहाँ-ने इस अधिसूचना को प्रकाशन डी.म. सं. 3 में अतिरिक्त शर्तों को पूरा करे:

मुनिल कुमार  
संयुक्त सचिव

पोस्ट परिसर, सड़क परिसर और राजमार्ग मंत्रालय  
(पोस्ट परिसर विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर, 2008

संकल्प

संख्या डी-10/10/2008-हिन्दी-3—पोस्ट परिसर विभाग के दिनांक 28.02.2005 के संकल्प संख्या डी-10/10/2004-हिन्दी को अधिकृत करके हुए, भारत सरकार, राजधानी, पोस्ट परिसर, सड़क परिसर और राजमार्ग-मंत्रालय, पोस्ट परिसर विभाग को हिन्दी-संवाहक समिति को उन्नत प्रभाव से पुनर्गठित करती है, इस समिति का गठन, कार्य और इसका कार्य-काल आदि विवरण नीचे है:-

1. गठन

पोस्ट परिसर, सड़क परिसर और राजमार्ग मंत्रालय

सदस्य

1. सचिव (पोस्ट परिसर)

सदस्य

2. सचिव, राजमार्ग विभाग और भारत सरकार के

हिन्दी संवाहक

सदस्य

3.	अपर सचिव और वितीय सलाहकार, पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय	सदस्य	स्थायी पता: श्री हरिसिंह नासारू राठौड़ संसद-सदस्य (लोक-सभा) हिजवई नगर, यवतमाल (महाराष्ट्र)	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव, राजभाषा-विभाग	सदस्य		
5.	नौवहन-महादिनेशक, मुम्बई	सदस्य		
6.	दीपस्तंभ और दीपपोत-प्रहानिदेशक, नोएडा	सदस्य	27 श्री बलवंत उर्फ बाल आटे	सदस्य
7.	अध्यक्ष, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण, नोएडा	सदस्य	संसद-सदस्य (राज्य-सभा), सी-702, स्वर्ण जयंती सदन, डॉ० विशम्भर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001	
8.	अध्यक्ष और प्रबंध-निदेशक, भारतीय नौवहन-निगम लिमिटेड, मुम्बई	सदस्य	टेलीफोन नं० 23311966, मोबाइल-9868181181	
9.	अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू-पत्तन-न्यास, मुम्बई,	सदस्य	स्थायी पता: गिरिश बिल्डिंग, टी एच कटरिया रोड, महिम, मुम्बई-400016	
10.	अध्यक्ष, चेन्नई-पत्तन-न्यास, चेन्नई	सदस्य	टेलीफोन नं०-022-24376441, 24372419	
11.	अध्यक्ष, कोलकाता-पत्तन-न्यास, कोलकाता	सदस्य	28 श्री धरम पाल सप्रवाल	सदस्य
12.	अध्यक्ष, मुर्गाव-पत्तन-न्यास, मुर्गाव	सदस्य	संसद-सदस्य (राज्य-सभा) सी-201, स्वर्ण जयंती सदन, डॉ० बी० डी० मार्ग, नई दिल्ली	
13.	अध्यक्ष, नवमंगलूर-पत्तन-न्यास, मंगलूर	सदस्य	फोन नं० 23315733 मो० 9868181137, 9855486868	
14.	अध्यक्ष, कोचीन-पत्तन-न्यास कोचीन	सदस्य	स्थायी पता: मकान नं० 53-ए, बहादुर पुर, होशियार पुर, पंजाब	
15.	अध्यक्ष, मुंबई-पत्तन-न्यास	सदस्य	5900, फेज-III, एम एच सी डाक-मनीमजरा, चण्डीगढ़-160101	
16.	अध्यक्ष, कांडला-पत्तन-न्यास	सदस्य	संघीय राजभाषा समिति द्वारा नामित	
17.	अध्यक्ष, तूतीकोरिन-पत्तन-न्यास	सदस्य	29 श्री सुब्रत बोस,	सदस्य
18.	अध्यक्ष, विशाखापट्टणम-पत्तन-न्यास	सदस्य	संसद-सदस्य (लोक-सभा) 15, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली	
19.	अध्यक्ष, पारादीप-पत्तन-न्यास	सदस्य	फोन नं० 23093806 मो० 9830011421	
20.	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सदस्य	स्थायी पता: श्री सुब्रत बोस, संसद-सदस्य (लोक-सभा) 1/385, गरिहत रोड, साउथ जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068	
21.	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, डैजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	सदस्य	30. श्री चन्द्र कुमार	सदस्य
22.	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टणम	सदस्य	संसद-सदस्य (लोक-सभा) हिमाचल-भवन, नई दिल्ली	
23.	मुख्य अभियंता और प्रशासक, अंडमान-लक्षद्वीप बंदरगाह-निर्माण-कार्य, पोर्ट ब्लेयर	सदस्य	फोन नं० 23359343 मो० 9868180631	
24.	संयुक्त सचिव (पत्तन और प्रशासन)	सदस्य-सचिव	स्थायी पता: श्री चन्द्र कुमार संसद-सदस्य (लोक-सभा) ग्राम: हन, डाकघर:मललाइड, तहसील: ज्वाली, जिला-कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	
गैर सरकारी सदस्य			(ख) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा नामित	
(क) संसद-सदस्य			31. श्री मोहम्मद जकी अंसारी	सदस्य
संसदीय-कार्य-मंत्रालय द्वारा नामित			डी डी ए प्लैट नं०-760, सै ए, पोस्ट बॉ और सी, बसंत कुंज, नई दिल्ली-110070	
25.	श्री नवीन जिन्दल, संसद-सदस्य (लोक-सभा) जिन्दल हाउस, 6 पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011	सदस्य	टेलीफोन नं०-26898066	
स्थायी पता: नवीन जिन्दल, संसद-सदस्य (लोक-सभा) जिन्दल हाउस, पीपली रोड कुरुक्षेत्र-136118 (हरियाणा)				
26.	श्री हरिसिंह नासारू राठौड़ संसद-सदस्य (लोक-सभा) 150, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001 फोन नं० 23092411 मो० 9868180458	सदस्य		

32. प्रोफेसर अमर गंग त्रिपाठी,  
प्रधान नैत्री राष्ट्रीय प्रचार समिति, वर्धा  
पो. ब्रिजों नगर, वर्धा ( महाराष्ट्र ) 432003  
टेलीफोन (घरेलू) 0252-240745  
(निजी)-0252-240128  
मोबाइल 99423140128

पोत परिवहन-विभाग द्वारा नामित

33. डॉ० रामेंद्र खर्गे,  
डॉ० ए. कृष्णन हाउसिंग सोसायटी,  
शांति नगर के पास, कोथरुड,  
पुणे 411004  
टेलीफोन (निजी) 020-25281181  
मोबाइल 99531088496

34. डॉ० (श्रीमती) गी. गिर,  
"विश्राम" को.एस. 159, ब.वि.मार्ग,  
मलिनगर (निजी) 020-2752683  
टेलीफोन (निजी) 020-2752683  
मोबाइल 99810636131, 942223973

राजभाषा विभाग द्वारा नामित

35. डॉ० (श्रीमति) विष्णु कर्मा,  
1, प्रोफेसरों बंगला,  
सी. कॉलेज, आश्विन कम्पाउंड,  
रानी बट,  
पटना 800006  
मोबाइल 994314215018

36. श्री सखदेव जयराव अहिर,  
जमीन कम्युनिटी समनएत,  
पटना 800006  
मोबाइल 99431649380

37. डॉ० ब्रजेश कुमार,  
ग्राम जितवाहन संगठन पियर,  
थाना-गंधि-दुर्गा  
जिला पूर्व चम्पारण (मोतीहारी)  
मोबाइल 9431003194

## II. कार्य

यह समिति, केंद्रीय हिन्दी-समिति और राजभाषा-विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीतियों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, पोत-परिवहन, सहक परिवहन और राजभाषा-मंत्रालय,

सदस्य संबंधित मामलों में भलाइ देगा।

## III. कार्य-काल

इस समिति का कार्य-काल, सामान्य रूप से इसके गठन की तारीख से निम्नलिखित दिनों के अर्धेन 3 वर्ष का होगा:-

(क) जो संसद सत्र, इस समिति के सदस्य हैं, वे संसद-सदस्य नहीं रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे;

(ख) जो संसद सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य होने की हैसियत से इस समिति के सदस्य हैं वे संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य नहीं रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे;

(ग) इस समिति के घटेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक इस समिति के सदस्य रहेंगे; तथा

(घ) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा किसी सदस्य द्वारा समिति की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिए जाने के कारण कोई स्थान खाली हुआ, तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य, इस समिति के कार्य-काल की शेष अवधि तक ही सदस्य रहेगा।

## IV. सामान्य

इस समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

## V. यात्रा तथा अन्य भत्ते

इस समिति के हर सदस्य के सदस्यों को इस समिति की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए राजभाषा-विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 11/20034-न. 86 राजभाषा (क-2) में निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ता तथा दैनिक-भत्ता दिया जाएगा।

## आदेश

यह आदेश दिया जाना है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति, निम्नलिखित को प्रेषित की जाए,

राष्ट्रपति-सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल-सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय लोक सभा-सचिवालय, राज्य-सभा-सचिवालय, केंद्रीय राजभाषा-समिति, योजना आयोग, भारत के निबंधक और महासचिव, योजना, योजनापरिषद्, निवेशक, केंद्रीय राजस्व, पोत परिवहन, सहक परिवहन और राजभाषा-मंत्रालय, पोत परिवहन-विभाग को दिनांक मनाइकार समिति के भर्ता सदस्य और भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग।

यह भी आदेश दिया जाना है कि यह संकल्प, सर्वसाधारण की सूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

राकेश श्रीवास्तव,  
संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 17th September, 2008

## RESOLUTION

No. E-12011/1/2008-Hindi. On the expiry of the tenure of Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Mines, Government of India have decided to re-constitute the Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Mines. The composition, function etc. of the Samiti will be as under:—

## (I) Composition

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Minister of Mines           | Chairman     |
| 2. Minister of State for Mines | Dy. Chairman |

## Non-official Members

## Nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

- |  |        |
|--|--------|
| 3. Shri Ravi Prakash, M.P. (Lok Sabha)         | Member |
| 4. Shri Ramesh Baish, M.P. (Lok Sabha)         | Member |
| 5. Shri Rajiv Shukla, M.P. (Rajya Sabha)       | Member |
| 6. Shri Raghunandan Sharma, M.P. (Rajya Sabha) | Member |

## Nominated by Parliamentary Committee on Official Language

- |  |        |
|--|--------|
| 7. Sh. Digvijay Singh, M.P. (Rajya Sabha)    | Member |
| 8. Dr. Rajesh Kumar Mishra, M.P. (Lok Sabha) | Member |

## Nominated by Akhilbhartiya Hindi Sanstha Sangh

- |                   |        |
|-------------------|--------|
| 9. Sh. S.R. Joshi | Member |
|-------------------|--------|

## Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 10. Sh. Gopal Krishan Pharliya | Member |
|--------------------------------|--------|

## Nominated by the Ministry of Mines

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 11. Shri Rajendra Singh Meel   | Member |
| 12. Shri Deen Bandhu Chaudhary | Member |
| 13. Kumari Vidya A. Dedu       | Member |
| 14. Smt. Indira Tiwari         | Member |

## Nominated by the Deptt. of OL

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 15. Shri Anil Kumar Jha         | Member |
| 16. Shri Taiyab Ansari          | Member |
| 17. Smt. (Dr.) Kamalakshi Sarma | Member |

## Official Members

- |  |        |
|--|--------|
| 18. Secretary (Mines)                                      | Member |
| 19. Secretary, Deptt. of Official Language                 | Member |
| 20. Additional Secretary (Mines)                           | Member |
| 21. Joint Secretary, Deptt. of Official Language           | Member |
| 22. Joint Secretary & Financial Advisor, Ministry of Mines | Member |
| 23. Joint Secretary, Ministry of Mines                     | Member |
| 24. Director General, Geological Survey of India           | Member |

- |   |                  |
|---|------------------|
| 25. Controller General, Indian Bureau of Mines                        | Member           |
| 26. Chairman-cum-Managing Director, National Aluminium Company Ltd.   | Member           |
| 27. Chairman-cum-Managing Director, Hindustan Copper Ltd.             | Member           |
| 28. Chairman-cum-Managing Director, Mineral Exploration Corp. Ltd.    | Member           |
| 29. Joint Secretary (Incharge of Official Language) Ministry of Mines | Member-Secretary |

## (II) Functions

The functions of this Samiti will be to render advice to the Ministry of Mines and its organizations/undertakings in regard to the implementation of the various provisions relating to Official Language, contained in the Constitution, Official languages Act, Rules, decisions of the Kendriya Hindi Samiti and the instructions issued by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) in this regard.

## (III) Tenure

The term of the Samiti will be normally three years from the date of its re-constitution provided that:—

(a) A Member of Parliament nominated to the Committee shall cease to be a member of the Committee as soon as he ceased to be Member of Parliament.

(b) Ex-officio Members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are Members of the Samiti.

(c) If a vacancy arises in the Samiti due to resignation or death etc. of any members, the member appointed in that capacity shall hold office for the remaining term of the committee.

## (IV) General

The Headquarters of the Samiti shall be in New Delhi, but it may hold its meetings at any other station also, if so required.

## (V) Travelling and other allowances

(a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid Travelling allowance and Daily Allowance as per the provisions in the "Members of Parliament (Salary, Allowance & Pension) Act, 1954" amendments issued from time to time and rules made thereunder.

(b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official members of the samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language, O.M. No. 11/22034/04/86-O.L.(A-2) dated 22nd January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

## ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all State Governments and the Union Territory Administrations, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller & Auditor

General of India, Accountant General of Central Revenues, Committee of Parliament on Official Language and all Ministries and Departments of the Govt. of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

AJITABADRA PANDE  
Joint Secretary

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(Department of Higher Education)  
New Delhi-1, the 1st October, 2008.

No. F-9-27/2000-113. Whereas "Jaypee Institute of Information Technology (JIIT)", Noida (Uttar Pradesh), was declared as a 'deemed-to-be-university' under *De Novo* category under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's notification of even number dated the 1st November, 2004 subject to certain conditions that included a review after three years.

2. And whereas, the UGC has reviewed the functioning of the "JIIT", Noida through an Expert Committee constituted for this purpose.

3. And, whereas, on the basis of the report of the Expert Committee, the UGC vide its communication No. F-6-8/2004 (CPP-I) dated the 25th February, 2008 have recommended continuation of the status of 'Deemed-to-be-University' to "JIIT", Noida, subject to a further review after five years.

4. Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, and on the advice of the UGC in the matter, do hereby accord approval to the continuance of "Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), Noida, as a "deemed-to-be-university" for the purpose of the aforesaid Act, under *de novo* category for a further period of five years, strictly in terms of this Ministry's notification of even number dated the 1st November, 2004 subject to the following conditions that:

(i) the progress and performance of the JIIT shall be reviewed by the UGC with the help of an Expert Committee after a period of five years and that the status of 'deemed-to-be-university' conferred on the JIIT, Noida, shall be confirmed on the basis of the report of the said Expert Review Committee and recommendation of the UGC thereon.

(ii) the JIIT should immediately revise the Memorandum of Association (MoA) Rules in line and in accordance with the model MoA Rules prescribed by the UGC and get the approved MoA Rules duly registered.

(iii) the JIIT Society should, as per the advice of the UGC, submit an undertaking, on stamp paper, from the Japeekash Sewa Sansthan (JSS) Trust, New Delhi that the land subleased by the NODDA will be allowed to be in possession of JIIT, Noida, permanently; and

(iv) the JIIT should adhere to the norms and guidelines prescribed by the UGC and the All India Council for Technical Education (AICTE), from time to time, as are applicable to the institutions declared as deemed-to-be-universities under Section 3 of the UGC Act, 1956.

5. The declaration made in para 4 above shall be subject to further conditions that are mentioned at Sl. No. 4 of the endorsement of this notification.

(SUNIL KUMAR)  
Joint Secretary

MINISTRY OF SHIPPING ROAD TRANSPORT AND  
HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 24th September, 2008

#### Resolution

No. E-11013/2/2008-Hindi: In supersession of the Department of Shipping Resolution No. E-11013/3/2004-Hindi, dated 28-02-2005, the Government of India, hereby, reconstitutes the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping with immediate effect. The Composition, Functions, Tenure etc. of the Samiti will be as under.

#### 1. Composition:

Minister of Shipping, Road Transport and  
Highways

Chairman

#### Official Members:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Secretary (Shipping)  | Member |
| 2. Secretary, Department of<br>Official Language and Hindi Adviser to<br>the Government of India       | Member |
| 3. Additional Secretary and<br>Financial Adviser, Ministry of Shipping,<br>Road Transport and Highways | Member |
| 4. Joint Secretary,<br>Department of Official Language   | Member |
| 5. Director General of Shipping,<br>Mumbai   | Member |
| 6. Director General Lighthouses and<br>Lightships, Noida   | Member |
| 7. Chairman, Inland Waterways Authority<br>of India, Noida   | Member |
| 8. Chairman and Managing Director<br>Shipping Corporation of India Ltd., Mumbai                        | Member |
| 9. Chairman, Jawaharlal Nehru<br>Port Trust, Mumbai  | Member |
| 10. Chairman, Chennai Port Trust,<br>Chennai   | Member |
| 11. Chairman, Kolkata Port Trust,<br>Kolkata   | Member |
| 12. Chairman, Mormugao Port Trust,<br>Mormugao   | Member |
| 13. Chairman, New Mangalore Port<br>Trust, Mangalore   | Member |



14. Chairman, Cochin Port Trust, Cochin	Member	Representatives of the Committee of the Parliament on Official Language:	
15. Chairman, Mumbai Port Trust, Mumbai	Member	29. Sh. Subrat Bose	Member
16. Chairman, Kandla Port Trust, Kandla	Member	Member of Parliament (Lok Sabha)	
17. Chairman, Tuticorin Port Trust	Member	15, North Avenue, New Delhi	
18. Chairman, Paradip Port Trust	Member	Permanent Address:	
19. Chairman, Vishakhapatnam Port Trust	Member	1/385, Garibat Road,	
20. Chairman and Managing Director, Cochin Shipyard Ltd., Cochin	Member	South Jodhpur Park,	
21. Chairman and Managing Director, Dredging Corporation of India, Vishakhapatnam	Member	Kolkata-700 068	
22. Chairman and Managing Director, Hindustan Shipyard Ltd., Vishakhapatnam	Member	30. Sh. Chandra Kumar	Member
23. Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair	Member	Member of Parliament (Lok Sabha)	
24. Joint Secretary (Ports and Administration)	Member Secretary	Himachal Bhawan, New Delhi	
Non-Official Members		Permanent Address:	
(A) Members of Parliament		Village: Dhan	
Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs:		P.O.: Mallahad	
25. Sh. Naveen Jindal	Member	Tehsil: Jwari	
Member of Parliament (Lok Sabha)		District: Kangra (Himachal Pradesh)	
Jindal House,		(B) Representatives of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad:	
6, Prithviraj Road, New Delhi-11		31. Sh. Mohammed Zaki Ansari	Member
Permanent Address:		DDA Flat No. 760, Sector-A, Pocket B & C,	
Jindal House, Pipili Road		Vasant Kunj, New Delhi-110070	
Kurukshetra 136 118 (Haryana)		32. Professor Anant Ram Tripathi	Member
26. Sh. Hari Singh Nasaru Rathore	Member	Pradhan Mantri Rashtrabhasha	
Member of Parliament (Lok Sabha)		Prachar Samiti, Vardha	
150, North Avenue, New Delhi		Post: Hindi Nagar Vardha	
Permanent Address:		(Maharashtra) - 442 003	
Hijvai Nagar, Yavatmal (Maharashtra)		Non-Official Members Nominated by the Department of Shipping:	
27. Sh. Balvant alias Bal Apte	Member	33. Dr. Damodar Khadse	Member
Member of Parliament (Rajya Sabha)		D/D-8, Vrindavan Housing Society,	
C-702, Swarna Jayanti Sadan,		Near Shanti Van, Korhru,	
Dr. Vishambhar Dass Road, New Delhi		Pune - 411 029	
Permanent Address:		34. Dr. (Mrs.) Rama Singh	Member
Girish Building, T H Kataria Road,		"Vishrant" KM-159, Kavi Nagar,	
Mahim, Mumbai - 400 016		Chaziabad (U.P.) - 201 002	
28. Sh. Dharam Pal Sabharwal	Member	Nominated by the Department of Official Language:	
Member of Parliament (Rajya Sabha)		35. Dr. (Smt.) Veena Karna,	
C-702, Swarna Jayanti Sadan,		1, Professor's Quarter,	
Dr. Vishambhar Dass Road, New Delhi		Law College Hostel Compound,	
Permanent Address:		Rani Ghat, Patna-800006	
House No. 53-A, Bahadur Pur,		Mob: 09431421508	
Hoshiar Pur, Punjab		36. Shri Syed Shamael Ahmed,	
5900, Phase-III, MHC Post. Manimajra,		Jamul Compound, Samanpura,	
Chandigarh - 160 101		Patna-800014	
		Mob: 09431649180	
		37. Fr. Brajesh Kumar	
		Village- Jitwarpur, P.O. Pipra	
		P.S. Govind Ganj,	
		Distt. East Champaran (Motihari)	
		Bihar	
		Mob: 09431009494	

**II. Function-**

The Samiti will advise on the matters relating to the progressive use of Hindi in official work of the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping in accordance with the policies laid down by the Kendriya Hindi Samiti and the guidelines issued by the Department of Official Language in this regard from time to time.

**III. Tenure**

The tenure of the Samiti will ordinarily be three years from the date of its constitution provided that:

(a) the Members of the Parliament who are the members of the Samiti shall cease to be the members of the Samiti as soon as they cease to be the Members of the Parliament;

(b) The Members of the Parliament who are the members of the Samiti by virtue of their being members of the Committee of the Parliament on Official Language shall cease to be the members of the Samiti as soon as they cease to be the Members of the Committee of the Parliament on Official Language;

(c) ex-officio members of the Samiti shall continue to be the members of the Samiti as long as they hold the office by virtue of which they are the members of the Samiti; and

(d) if any vacancy arises in the Samiti owing to the death of a member or owing to tendering of resignation by a member, the member so appointed against that vacancy shall hold office for the residual term of the Samiti.

**IV. General**

The Headquarters of the Samiti will be at New Delhi.

**V. Travelling and other allowances**

The Non-Official Members of the Samiti will be paid travelling and other allowances for attending its meetings in accordance with the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No. II/20034-4/86-O.L.(A-2), dated January 22, 1987 and as per prescribed rates and rules of the Government of India as amended from time to time.

**ORDER**

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the following:

President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Committee of the Parliament on the Official Language, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit, Central Revenue, All members of the Samiti and all Ministries and Departments of Government of India.

Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RAKESH SHRIVASTAVA

Joint Secretary